

Instructions :

- All questions are compulsory.
- Question Nos. 1 to 10 are *Multiple choice type*. Question Nos. 11 to 20 are *Very short answer type* to be answered within 30 words each. Question Nos. 21 to 26 are *Short answer type* to be answered within 100 words each and Question Nos. 27 to 30 are *Long answer type* to be answered within 250 words each.
- Marks allotted to each question are indicated against it.

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

(Multiple Choice Type Questions)

सही उत्तर का चयन कीजिये तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए :

- बैंक का प्रमुख कार्य है
 - चैक एवं बिल का संग्रहण
 - ऋण देना
 - सन्दर्भ पत्र देना
 - अभिगोपन ।
- किस खाते में बैंक से चैक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है?
 - सावधि जमा खाता
 - चालू खाता
 - बचत खाता
 - इनमें से कोई नहीं ।

नाम

159

352

2019

अधिकोषण तत्व

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है ।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

- निर्देश :
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
 - प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं । प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 30 शब्दों के अन्तर्गत लिखना है । प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों के अन्तर्गत लिखना है । प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों के अन्तर्गत लिखना है ।
 - प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं ।

A11111

[Turn over

3. वह व्यक्ति जो विनिमय विपत्र लिखता है, कहलाता है
 i) लेनदार ii) देनदार
 iii) बेचानकर्ता iv) इनमें से कोई नहीं । 1
4. व्यापारिक बैंकों के संशोधित आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप लागू किया गया है
 i) 31 मार्च, 1991 को
 ii) 31 मार्च, 1992 को
 iii) 31 मार्च, 1994 को
 iv) 31 मार्च, 1997 को । 1
5. भारत में बैंकिंग संकट का कारण था
 i) बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि
 ii) नकद कोषों में कमी
 iii) केन्द्रीय बैंक का अभाव
 iv) इनमें से सभी । 1
6. देशी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा दी जाती है
 i) ~~कृषकों को~~ ii) व्यापारियों को
 iii) सामान्य जनता को iv) इनमें से सभी को । 1
7. भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करते हैं
 i) अति अल्पकालीन ii) अल्पकालीन
 iii) मध्यम कालीन iv) दीर्घकालीन । 1
8. निम्न में से अल्पकालीन ऋणों में क्या शामिल किया जाता है ?
 i) याचना मुद्रा
 ii) अल्पकालीन सूचनार्थ ऋण
 iii) नकद साख
 iv) इनमें से सभी । 1

9. व्यापारिक बैंकों पर किसका नियन्त्रण होता है ?
 i) भारत सरकार ii) भारतीय स्टेट बैंक
 iii) नाबार्ड iv) भारतीय रिजर्व बैंक । 1
10. डाकघर कौन-सी सेवा नहीं देता है ?
 i) डाक टिकटों का विक्रय
 ii) सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय
 iii) पोस्टल आर्डर का विक्रय
 iv) इनमें से सभी । 1
- Select the correct answer and write it in the answer-book :
1. The main function of bank is
 i) collection of cheques and bills
 ii) providing loan
 iii) providing letter of reference
 iv) underwriting. 1
2. In which account cheque facility is not provided by Bank ?
 i) Fixed Deposit Account
 ii) Current Account
 iii) Savings Bank Account
 iv) None of these. 1
3. The person who writes Bill of Exchange is known as
 i) Creditor ii) Debtor
 iii) Endorser iv) none of these. 1

4. Amended format of Balance Sheet of commercial banks was implemented from
 i) 31st March, 1991
 ii) 31st March, 1992
 iii) 31st March, 1994
 iv) 31st March, 1997. 1
5. The cause of Banking crisis in India was
 i) abnormal increase in number of banks
 ii) decrease in cash fund
 iii) lack of central bank
 iv) all of these. 1
6. Loan facility is provided by indigenous bankers to
 i) farmers ii) traders
 iii) general public iv) all of these. 1
7. Land Development Bank provides loan for
 i) very short term ii) short term
 iii) medium term iv) long term. 1
8. Which of the following is included in short term loan?
 i) Call money
 ii) Loan at short notice
 iii) Cash credit
 iv) All of these. 1

9. Who controls commercial banks?
 i) Govt. of India
 ii) State Bank of India
 iii) NABARD
 iv) Reserve Bank of India. 1
10. Which services are not provided by Post Office?
 i) Sale of postal stamps
 ii) Sale and purchase of Government securities
 iii) Sale of postal order
 iv) All of these. 1

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

11. इकाई बैंकिंग से क्या अभिप्राय है ? 2
11. What is the meaning of Unit Banking ? 2
12. बैंक बचत खाते के क्या लाभ हैं ? 2
12. What are the advantages of Savings Bank Account ? 2
13. गैर-बैंकिंग सम्पत्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 2
13. Explain the meaning of Non-Banking Assets. 2

[Turn over

14. बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में किस प्रकार की जमानतें रखी जाती हैं ? 2
14. Which type of securities are kept by bank for giving loan ? 2
15. देशी बैंकर्स का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 2
15. Explain the meaning of indigenous bankers. 2
16. भूमि विकास बैंकों के लाभ बताइये । 2
16. State the advantages of Land Development Banks. 2
17. विदेशी विनिमय बैंकों के कार्यों को लिखिये । 2
17. Write the functions of Foreign Exchange Banks. 2
18. भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख उपलब्धियाँ लिखिए । 2
18. Write the main achievements of State Bank of India. 2
19. रिजर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले साधारण बैंकिंग कार्य को लिखिये । 2
19. Write ordinary banking functions performed by Reserve Bank of India. 2
20. प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रमुख विशेषतायें लिखिये । 2
20. Write the main characteristics of primary co-operative credit societies. 2

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

21. आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व की व्याख्या कीजिए । 5
21. Explain the importance of banks in modern economy. 5
22. किसी बैंक में चालू खाता खोलने की कार्य विधि को समझाइए । 5
22. Explain the procedure of opening of current account in a bank. 5
23. बैंक के आर्थिक चिट्ठे के पूँजी एवं दायित्व पक्ष की मदों को बताइए । 5
23. State the items of Capital and Liability sides in the Bank's Balance Sheet. 5
24. "रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है ।" समझाइए । 5
24. "Reserve Bank is banker's bank." Explain. 5
25. भूमि विकास बैंकों की ऋणनीति का वर्णन कीजिये । 5
25. Describe the loan policy of Land Development Banks. 5
26. भारत में सहकारी साख समितियों के लाभ एवं हानियों को लिखिए । $2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$
26. Write the advantages and disadvantages of Co-operative Credit Societies in India. $2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

27. प्रतिज्ञापत्र क्या है ? प्रतिज्ञापत्र तथा हुण्डी में क्या अन्तर है ? प्रतिज्ञापत्र का नमूना बनाइए । 2 + 3 + 5

अथवा

- समाशोधन गृह से आप क्या समझते हैं ? समाशोधन गृह की कार्यविधि को समझाइए । 3 + 7

27. What is Promissory Note ? What is the difference between Promissory Note and Hundi ? Prepare a specimen of promissory note. 2 + 3 + 5

OR

What do you understand by clearing house ? Explain the clearing procedure of clearing house. 3 + 7

28. नकद कोष किसे कहते हैं ? बैंक के नकद कोष को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिये ।

3 + 7

अथवा

- बैंक द्वारा ऋण देने के समय कौन-कौन सी सावधानियाँ अपनायी जाती हैं ? व्याख्या कीजिए । 10

A11111

[Turn over

A11111

[Previous Pathshala](#)

28. What is Cash Reserve ? Explain the factors determining Cash Reserve of a bank. 3 + 7

OR

What precautions are adopted by banks while granting loans ? Explain. 10

29. भारत में देशी बैंकर्स के गुण-दोषों की व्याख्या कीजिये । 5 + 5

अथवा

भारत में भूमि विकास बैंकों की धीमी प्रगति के कारणों को बताइए । इनके उपचार हेतु सुझाव दीजिए । 5 + 5

29. Explain the merits and demerits of indigenous bankers in India. 5 + 5

OR

State the causes of slow progress of Land Development banks in India. Suggest measures for their remedies. 5 + 5

30. भारत में डाकघर द्वारा प्रदत्त बैंक सम्बन्धी सेवाओं को बताइए । इन सेवाओं को किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ? 6 + 4

अथवा

- भारतीय स्टेट बैंक के उद्देश्यों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए । 3 + 7

30. State the banking services provided by Post office in India. How can these services be made more useful ? 6 + 4

OR

Explain the objectives and functions of State Bank of India. 3 + 7

352 – 1,30,000

